



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1930 (श0)  
(सं0 पटना-456) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2008

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

18 जुलाई 2008

संख्या-01/रा.स्था.(3)पद.-015/2008सह.-2993—श्री पंकज कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर अंचल, भागलपुर का प्रभार दिया जाता है।

2. बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम-1935 की धारा-6(2) अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर को अधिनियम की धारा-12, 14(उप धारा -10 को छोड़कर), 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में और धारा -34, 48, (उपधारा- 6 एवं 8 को छोड़कर) 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियों के साथ बिहार सोसायटी नियमावली 1959 एतद्संबंधी निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

3. प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने-अपने कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
प्रमोद कुमार पाण्डेय,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 456-571+5-डी0टी0पी0।